



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 12, 2005—फरवरी 18, 2005 (माघ 23, 1926)  
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 12, 2005—FEBRUARY 18, 2005 (MAGHA 23, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

## [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 4 जनवरी 2005

सं. पी.-3046/प्रशा.-3--अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय परिषद, भुवनेश्वर में अवर सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप श्री ए. सी. ओझा ने संघ लोक सेवा आयोग के के. स. से. संवर्ग में 3 जनवरी, 2005 के पूर्वाह्न से अनुभाग अधिकारी के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एस. आनंदन  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 6 जनवरी 2005

सं. ए-31014/1/95-प्रशा.-3--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग में के. स. से. संवर्ग के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में परीक्षाधीन श्री गिरि, जे. (अ.पि.व.) का सिविल सेवा परीक्षा, 2000 (रैंक-372)

के परिणाम के आधार पर चयन हो जाने पर 02.09.2004 से उक्त ग्रेड में मूल क्षमता में नियुक्त करते हैं।

एस. आनंदन  
अवर सचिव (प्रशा.)

गृह मंत्रालय

(सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी)

हैदराबाद-500052, दिनांक 27 जनवरी 2005

सं. 15011/7/2002-स्थापना--माननीय राष्ट्रपति द्वारा श्री (डॉ.) शेख दरवेश साहेब, भा.पु.से. (केरल-90) को सहायक निदेशक, स.व.प. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद के पद से उप-निदेशक, स.व.प. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद के पद पर दिनांक 27.01.2005 पूर्वाह्न से पदोन्नत करके अगले आदेश तक रुपये 16,400--20,000/- के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर नियुक्त किया जाता है।

कमल कुमार  
निदेशक

## महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 जनवरी 2005

सं. ओ-दो-3650/04-सीआरसी(एमओ)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर उमा शंकर वर्मा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 15.12.2004 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 89 बटा. में तैनात किया जाता है।

जे. एन. शर्मा

अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-एक)

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)  
चलार्थ पत्र मुद्रणालय

नासिक रोड, दिनांक 24 जनवरी 2005

सं. 32/एस-ईएससी-1-10--चलार्थ पत्र मुद्रणालय के निम्नलिखित निरीक्षक नियंत्रणों को तदर्थ आधार पर रु. 6,500-200-10,500/- के वेतन श्रेणी में उप नियंत्रण अधिकारी (वर्ग 'ख', राजपत्रित) के पद पर चलार्थ पत्र मुद्रणालय में उनके नाम के आगे दर्शाई गई अवधि तक अथवा नियंत्रण अधिकारी के पद नियमित रूप से भरे जाने तक इनमें से जो भी पहले हो, पदोन्नत किया जाता है :-

क्रम सं.	नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1.	श्री पी. जे. झोडगेकर	08.12.2004	12.01.2005
2.	श्री एच. एस. अहिरे (अ.जा.)	13.12.2004	12.01.2005
3.	श्री के. पी. राजेस्थ	12.01.2005	11.07.2005

2. उक्त तदर्थ पदोन्नति पदोन्नत कर्मचारी को स्थाई नियुक्ति के लिए दावा अर्जित नहीं कराती और उनके द्वारा की गई तदर्थ सेवा उस श्रेणी में वरिष्ठता पदोन्नति की पात्रता आदि के लिए गिनी नहीं जाएगी।

उक्त पदोन्नति कोई भी कारण दर्शाए बिना समाप्त की जा सकती है।

अ. ना. इंगले  
महाप्रबन्धक

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग  
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-सिविल का कार्यालय,  
आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 2005

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-सिविल, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों को स्वीच्छिक

अधिवर्षिता पर निवृत्त होने पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथियों से सेवानिवृत्ति की घोषणा करते हैं :-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री		
1.	जी. विजय लक्ष्मी	व.ले.प. अधिकारी	31.12.2004 (अपराह्न)
2.	मोहम्मद मस्तान अली	-तदैव-	-तदैव-
3.	आर. यल्लमंदा	-तदैव-	-तदैव-
4.	के. सत्य प्रसाद	-तदैव-	-तदैव-
5.	वी. देवादानम	-तदैव-	-तदैव-

सी. सैलजा

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार सहर्ष निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) को स्वीच्छिक/अधिवर्षिता पर निवृत्त होने पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथियों से सेवानिवृत्ति की घोषणा करते हैं :-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	सेवानिवृत्ति तिथि
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	
1.	बेयाई कोलिन्स	19.10.2004 (पूर्वाह्न) (इस्तीफा)
2.	टी. आर. जगन्नाथ राव	31.12.2004 (पूर्वाह्न)

सी. सैलजा

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (सीडब्ल्यू एवं आरए), उड़ीसा

भुवनेश्वर, दिनांक 20 जनवरी 2005

सं. स्था. आ. सं.-02--इस कार्यालय के का.आ.ग. (वाणि.)-41 दिनांक 05.01.2005 द्वारा सूचित मुख्यालय के अनुभागीय कार्यालय आदेश सं. सी.ए.-1क/प्रशा./01 दिनांक 03.01.2005 के अनुसरण में निम्नलिखित लेखापरीक्षा अधिकारीगण (वाणि.) पदोन्नति होने पर उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/- पर कार्यालय महालेखाकार (वाणि. निर्माण एवं ले.प्र.) के वाणिज्यिक प्रभाग में वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्य) के रूप में कार्यभार ग्रहण किए हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वलेप के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
01.	श्री दिवाकर महापात्र	05.01.2005 (पूर्वाह्न)
02.	श्री पद्मनाभ साहू	12.01.2005 (पूर्वाह्न)
03.	श्री धनंजय दास	05.01.2005 (पूर्वाह्न)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के संवर्ग पर उनकी पदोन्नति उनके वरिष्ठों के दावे को प्रभावित किए बिना तथा न्यायालय के विचाराधीन मामलों पर माननीय उच्च न्यायालय/सी.ए.टी./उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय की शर्त पर की गई है।

यू. सुरेश राव  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. स्था. आ. सं.-03--इस कार्यालय के का.आ.ग. (वाणि.)-42 दिनांक 05.01.2005 द्वारा सूचित मुख्यालय के अनुभागीय कार्यालय आदेश सं. सी.ए.-1/प्रशा./02 दिनांक 03.01.2005 के अनुसरण में निम्नलिखित लेखापरीक्षा अनुभाग अधिकारीगण (वाणि.) पदोन्नति होने पर उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से वेतनमान रु. 7,450-225-11,500/- पर कार्यालय महालेखाकार (वाणि. निर्माण एवं ले.प्र.) के सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्य) के रूप में कार्यभार ग्रहण किए हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	उप ले.प.अ. के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
	सर्वश्री	
01.	दीपक कुमार साहू	05.01.2005 (पूर्वाह्न)
02.	भरत चन्द्र वेहेरा	05.01.2005 (पूर्वाह्न)
03.	प्रभात कुमार प्रचान	05.01.2005 (पूर्वाह्न)
04.	सुव्रत कुमार सेठी	10.01.2005 (पूर्वाह्न)
05.	कौसीक दास	05.01.2005 (पूर्वाह्न)
06.	हिमान्शु शैखर बारिक	10.01.2005 (पूर्वाह्न)
07.	दुशासन वेहेरा	10.01.2005 (पूर्वाह्न)

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के संवर्ग पर उनकी पदोन्नति उनके वरिष्ठों के दावे को प्रभावित किए बिना तथा न्यायालय के विचाराधीन मामलों पर माननीय उच्च न्यायालय/सी.ए.टी./उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय की शर्त पर की गई है।

यू. सुरेश राव  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

रक्षा मंत्रालय  
(आयुध निर्माणा बोर्ड)

कोलकाता-700001, दिनांक 25 जनवरी 2005

सं. 134/एसपीएल/कन्फ/ए/एम--राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी परीवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने

पर विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-II (जूनियर स्केल) में सहर्ष पुष्टि प्रदान करते हैं :-

क्रम सं.	नाम तथा पदनाम	पुष्टि की तिथि
01.	डॉ. एस. के. मिश्रा	05.08.2004
02.	डॉ. ए. के. आर्या	21.04.2004
03.	डॉ. प्रवीण कुमार	03.05.2004
04.	डॉ. (श्रीमती) कविता ओझा	03.05.2004
05.	डॉ. एस. विजयकुमार	14.06.2004
06.	डॉ. (श्रीमती) पी. बंधोपाध्याय	12.11.2004

डॉ. एम. के. लागुसा  
अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं  
कुठे महानिदेशक, आयुध निर्माणियां

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय  
(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171004, दिनांक 31 जनवरी 2005

सं. 5/1/2004-सी.पी.आई.--दिसम्बर, 2004 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982-100) 4 अंक घट कर 521 (पांच सौ इक्कीस) अंक रहा।

आई. एस. नेगी  
उप निदेशक

कोयला एवं खान मंत्रालय  
(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-700016, दिनांक 24 जनवरी 2005

शुद्धि-पत्र

सं. 147बी/ए-19012(1-ए.के.एस.)/02/19ए--इस कार्यालय की अधिसूचना सं. 2766/ए-19012(1-ए.के.एस.)/02/19ए, दिनांक 30.09.2004 की पहली पंक्ति में दर्शाए गए अधिकारी के नाम को अर्जुन कुमार सिंह के बदले श्री अजय कुमार सिंह पढ़ा जाए।

इस अधिसूचना की अन्य विषयवस्तु अपरिवर्तित रहेगी।

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
कुठे महानिदेशक

संस्कृति मंत्रालय  
(संस्कृति विभाग)  
भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण

कोलकाता-700016, दिनांक 27 जनवरी 2005

सं. 4-331/2004/स्थापना--निदेशक (प्रभारी), भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, सहर्ष इस सर्वेक्षण के सम्बद्ध उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय केन्द्र देहरादून के श्री एन. के. सिन्हा, अनुसंधान सहयोगी (सां.) को उसी केन्द्र में सहायक मानवविज्ञानी (सां.), युप-बी (राजपत्रित) वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- के पद पर दिनांक 20 दिसम्बर, 2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं।

लोक नाथ सोनी  
कार्यालय अध्यक्ष

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 2005

सं. 48/1(2)/2004-ईआर/136--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को भावी आदेश होने तक प्रत्येक व्यक्ति के सामने उल्लिखित ग्रेड पर परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ईईआरबी) में तारीख 01 सितम्बर, 2004 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	नियुक्ति ग्रेड	वेतनमान (रु.)
1.	कु. सोनल सुराणा	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	8000-275-13500
2.	कु. रितु सूर्यप्रकाश सिंह	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	8000-275-13500
3.	श्री श्रीकाकूलापू गंगा कृष्णा	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	8000-275-13500
4.	श्री सौमेन सिन्हा	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	8000-275-13500

कै. पद्मनाभन  
अवर सचिव

परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र

कोलकाता-700064, दिनांक 24 जनवरी 2005

सं. वीईसीसी/पदोन्नति(अगस्त)/2004/363--राष्ट्रपति, प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र पर (रु. 10,000-325-15,200/-) के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (एच) के पद

पर अस्थाई रूप से काम करने के लिए 1 अगस्त 2004 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतनमान (रु.)
1.	श्री पी. सिंह बाबू	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	8000-275-13500
2.	श्री समीत बंधोपाध्याय	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	8000-275-13500
3.	श्री एस. डे. चौधरी	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	8000-275-13500
4.	श्री पार्थ धारा	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	8000-275-13500
5.	श्री एस. के. नायक	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	8000-275-13500

एन. श्रीनिवास राव  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. वीईसीसी/पदोन्नति(अगस्त)/2004/363--राष्ट्रपति, प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र पर (रु. 12,000-375-16,500/-) के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (एच) के पद पर अस्थाई रूप से काम करने के लिए 1 अगस्त 2004 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतनमान (रु.)
1.	श्री जी. सी. बसक	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	10000-325-15200
2.	श्री आर. बी. भोले	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	10000-325-15200
3.	श्री रविन्द्रनाथ डे	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	10000-325-15200
4.	श्री सुजित पाल	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	10000-325-15200

एन. श्रीनिवास राव  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर-452013, दिनांक 24 दिसम्बर 2004

सं. केट/प्रशा./भ-807(I)/43--निदेशक, प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर एतद्द्वारा श्री के. एस. पिल्लै, सहायक कार्मिक अधिकारी को

प्रशासनिक अधिकारी-II के पद पर रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में दिनांक 28 दिसम्बर, 2004 की पूर्वाह्न से प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में स्थानापन्न रूप से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एस. सी. जैन  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

श्री एम. आर. सरकार को उसी एकक में दिनांक 16.11.2004 (अपराह्न) से 17.12.2004 (अपराह्न) तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में सहायक भंडार अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

किशन टी. लोंढे  
प्रशासनिक अधिकारी-III

#### क्रय और भंडार निदेशालय

मुम्बई-400094, दिनांक 7 जनवरी 2005

सं. क्रभनि/भर्ती/11004/91--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने बी.ए.आर.सी., मुम्बई के लेखा सहायक श्री के. मुरलीधरन को इसी निदेशालय में दिनांक 30.12.2004 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश होने तक रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त किया है।

किशन टी. लोंढे  
प्रशासनिक अधिकारी-III

दिनांक 11 जनवरी 2005

सं. क्रभनि/10015/भर्ती/164--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने केन्द्रीय भंडार एकक, क्रभनि के भंडारी

#### भारी पानी बोर्ड

मुम्बई-400094, दिनांक 28 जनवरी 2005

#### शुद्धि-पत्र

सं. भापाबो/भ/2(5)2004/138--भारी पानी संयंत्र, थल एवं भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय) में रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'सी' के रूप में सर्वश्री बिभास प्रसाद एवं प्रमोद कुमार महेश्वरी की नियुक्ति के सम्बन्ध में इस कार्यालय के दिनांक 11.01.2005 की अधिसूचना संख्या भापाबो/भ/2(5) 2004/65 को देखने का कष्ट करें।

उपरोक्त अधिकारियों के सम्बन्ध में नियुक्ति तिथि को सुधारकर 01 सितम्बर, 2004 के अपराह्न के बजाय 01 सितम्बर, 2004 के पूर्वाह्न के रूप में पढ़ा जाए।

आर. के. सेनी  
मुख्य प्रशासन अधिकारी

#### जल संसाधन मंत्रालय केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड

फरीदाबाद-121001, दिनांक 20 जनवरी 2005

सं. 12-17/2 के (2)/परी. एवं गोप./कनि. जलभूवै./वै. स्था./532--विभागीय पदोन्नति समिति (समूह 'क'--राजपत्रित) की सिफारिश एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर निम्नलिखित अधिकारियों ने अपनी परीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है तथा तदनुसार उन्हें 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान पर कनिष्ठ जलभूवैज्ञानिक के पद पर कॉलम सं. (4) एवं (5) में दर्शाई गई तिथि से मूल रूप में नियुक्त किया जाता है :--

क्रम सं.	कनिष्ठ जलभूवैज्ञानिक का नाम	नियुक्ति/पदोन्नति की तिथि	परीक्षा अवधि पूरी करने की तिथि	स्थायित्व की तिथि	तैनाती का वर्तमान स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	श्री ओ. एन. तिवारी (अब वरिष्ठ जलभूवैज्ञानिक)	02.03.1987	01.03.1989	02.03.1989	मध्य पूर्वी क्षेत्र, पटना
2.	श्री अशोक कुमार, कनिष्ठ जलभूवैज्ञानिक	06.11.1992	05.11.1994	06.11.1994	उ.प. हिमालयी क्षेत्र, जम्मू
3.	श्री ए. रवि	27.08.1992	26.08.1994	27.08.1994	द.पू.म. क्षेत्र, चेन्नई
4.	श्री यू. श्रीवास्तव	01.10.1993	30.09.1995	01.10.1995	उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ
5.	श्री अनुराग खन्ना	28.09.1993	27.09.1995	28.09.1995	पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर

1	2	3	4	5	6
6.	श्री ए. अशोकन	29.10.1993	28.10.1995	29.10.1995	द.पू.म. क्षेत्र, चेन्नई
7.	श्री पी. एन. सिंह	01.08.1997	31.07.1999	सहायक जलभूवैज्ञानिक के ग्रेड पर पहले से ही स्थायी	राज्य एकक कार्यालय, नई दिल्ली
8.	श्री अवनिश कांत	16.08.1995	15.08.1997	16.08.1997	उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ
9.	श्री दिनेश तिवारी	24.07.1995	23.07.1997	24.07.1997	उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र, रायपुर
10.	श्री एस. के. सहगल	04.08.1997	03.08.1999	सहायक जलभूवैज्ञानिक के ग्रेड पर पहले से ही स्थायी	उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, चंडीगढ़
11.	श्री वी. एस. साईबासन	08.08.1997	07.08.1999	-वही-	दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, बंगलौर
12.	श्री ओ. पी. पुनिया	04.08.1997	03.08.1999	-वही-	राज्य एकक कार्यालय, जोधपुर
13.	श्री एम. एल. परमार	12.12.1997	11.12.1999	-वही-	उत्तर मध्य क्षेत्र, भोपाल
14.	श्री अजय वीर सिंह	01.08.1997	31.07.1999	-वही-	उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ
15.	श्री एन. के. श्रीवास्तव	13.08.1997	12.08.1999	-वही-	उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ
16.	श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव	12.11.1997	11.11.1999	12.11.1999	मुख्यालय, फरीदाबाद
17.	श्री एस. एस. हेगड़े	28.11.1997	27.11.1999	पहले से ही स्थायी	दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, बंगलौर
18.	डॉ. जावेद रजा	04.09.1997	03.09.1999	-वही-	मुख्यालय, फरीदाबाद
19.	श्री एस. के. वर्मा	04.08.1997	03.08.1999	-वही-	उत्तर मध्य क्षेत्र, भोपाल
20.	श्री के. जे. आनन्द कुमार	01.08.1997	31.07.1999	-वही-	के.भू. जल प्राधिकरण, नई दिल्ली
21.	श्री ए. के. घोष	01.08.1997	31.07.1999	-वही-	पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता
22.	श्री एम. के. शर्मा	06.08.1997	05.08.1999	-वही-	पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर
23.	डॉ. (श्रीमती) स्वपना देवी	04.08.1997	03.08.1999	-वही-	पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी
24.	श्रीमती शान्ता दत्ता	01.08.1997	31.07.1999	-वही-	दक्षिण पूर्व मध्य क्षेत्र, चेन्नई
25.	श्री बी. सी. कलिता	18.08.1997	17.08.1999	-वही-	पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी
26.	श्री पी. एस. चौहान	26.08.1997	25.08.1999	-वही-	उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ
27.	श्री जे. पी. गौतम	26.08.1997	25.08.1999	-वही-	उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ

एस. के. सिन्हा  
निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 27 जनवरी 2005

सं. 3-1497/2004-अनु.स्था.--विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर श्री सीता राम, आशुलिपिक (ग्रेड-I) को 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान पर निजी सचिव, सा.सि.से. (समूह "ख") (राजपत्रित) के पद पर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में अस्थाई आधार पर 29.04.2004 (पूर्वाह्न) से पदोन्नत किया जाता है।

संतोष कुमार सिन्हा  
निदेशक (प्रशासन)

कम्पनी कार्य मंत्रालय  
(कम्पनी कार्य विभाग)  
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुई-जेनेसिज फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 सितम्बर 2004

सं. 560(5)/एसईएस/55/87326/255/1596--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुई-जेनेसिज फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सोलिड फिनकोन एण्ड सिन्थोरिटीज लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 जनवरी 2005

सं. 560(5)/एसईएस/55/75651/92--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स सोलिड फिनकोन एण्ड सिन्थोरिटीज लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पालमर एसोसियेट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 जनवरी 2005

सं. 560(5)/एसईएस/55/94355/95--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना

दी जाती है कि मैसर्स पालमर एसोसियेट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नोन्या एण्ड राय कम्प्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 जनवरी 2005

सं. 560(5)/एसईएस/55/115036/303/98--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स नोन्या एण्ड राय कम्प्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मिपुन फाईनान्शियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 जनवरी 2005

सं. 560(5)/एसईएस/05/31984/304/101--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स मिपुन फाईनान्शियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एस. जे. इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 जनवरी 2005

सं. 560(5)/एसईएस/55/97863/298/106--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स एस. जे. इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित

हो गई है। उक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्ट्रेटिजी फिनवेस्ट लीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 जनवरी 2005

सं. 560(5)/एसईएस/55/76353/188/109--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्ट्रेटिजी फिनवेस्ट लीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए.के. अल्कोसुगर एण्ड इन्वेसलीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 जनवरी 2005

सं. 560(5)/एसईएस/55/75917/112--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स ए.के. अल्कोसुगर एण्ड इन्वेसलीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स केजीएस ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 जनवरी 2005

सं. 560(5)/एसईएस/55/102233/115--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स केजीएस ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित

हो गई है। उक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वेरी पोलीकेम लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 जनवरी 2005

सं. 560(5)/एसईएस/55/88199/120--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स वेरी पोलीकेम लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बजरंग फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 जनवरी 2005

सं. 560(5)/एसईएस/55/83868/129--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स बजरंग फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इफेक्टिव टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 जनवरी 2005

सं. 560(5)/एसईएस/55/95619/284/132--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स इफेक्टिव टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त



कम्पनी विघटित हो गई है। उक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

हो गई है। उक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सूरजपुर गैसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 जनवरी 2005

सं. 560(5)/एसईएस/55/94190/194/135--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स सूरजपुर गैसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मोरसेला (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 जनवरी 2005

सं. 560(5)/एसईएस/55/97820/265/144--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स मोरसेला (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अरोरा केबिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 जनवरी 2005

सं. 560(5)/एसईएस/55/89552/268/138--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स अरोरा केबिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वन्दना फाईनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 जनवरी 2005

सं. 560(5)/एसईएस/55/76334/279/147--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स वन्दना फाईनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स असेन्ट इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 जनवरी 2005

सं. 560(5)/एसईएस/55/103662/142--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स असेन्ट इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स महायोग आयुर्वेद हैल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 जनवरी 2005

सं. 560(5)/एसईएस/55/115426/187/150--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स महायोग आयुर्वेद हैल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और

उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डीएलएफ इन्डस्ट्रियल रिसर्च इन्स्टीट्यूट (गारन्टी कम्पनी) के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 जनवरी 2005

सं. 560(5)/एसईएस/55/15241/153--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स डीएलएफ इन्डस्ट्रियल रिसर्च इन्स्टीट्यूट (गारन्टी कम्पनी) का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ब्रिज इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 जनवरी 2005

सं. 560(3)/13173/142--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती

है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ब्रिज इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सौरभ शेयर कन्सल्टैन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 20 जनवरी 2005

सं. आर.ओ.सी./560/15834/70--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स सौरभ शेयर कन्सल्टैन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110069, the 4th January 2005

No. P-3046/Admn.-III.—Consequent upon his repatriation from deputation as Under Secretary with National Council for Teacher Education, Bhubaneswar, Shri A. C. Ojha, has resumed his duties as Section Officer w.e.f. the forenoon of 3rd January, 2005 in the CSS Cadre of UPSC.

S. ANANDAN  
Under Secy. (Admn.)

The 6th January 2005

No. A-31014/1/95-Admn.-III.—The President is pleased to appoint Shri Giri, J. (OBC) a probationer in the Section Officer's grade of the Central Secretariat Service in the Cadre of the Union Public Service Commission selected on the basis of the results of Civil Services Exam. 2000 (Rank-372) to the same grade in a substantive capacity w.e.f. 2.09.2004 (Second, September, 2004).

S. ANANDAN  
Under Secy. (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE  
ACADEMY

Hyderabad-500052, the 27th January, 2005

No. 15011/7/2002-Estt.—The President is pleased to promote and appoint Dr. Shaik Darvesh Saheb, IPS (KL : 90), Assistant Director, SVP NPA, Hyderabad as Deputy Director in the SVP National Police Academy, Hyderabad with effect from the forenoon of the 27th January 2005 (F.N.) in the pay scale of Rs. 16,400—20,000/- until further orders on usual terms and conditions of deputation.

KAMAL KUMAR  
Director

DIRECTORATE GENERAL  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110003, the 18th January 2005

No. O.II-3650/04-CRC (MOs).—The President is pleased to appoint Dr. Uma Shankar Verma as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from

3—456 GI/2004

the forenoon of 15.12.2004 till further orders. He is posted to 89 Bn.

J. N. SHARMA  
Addl. DIG (Pers.-I)

MINISTRY OF FINANCE  
(DEPTT. OF ECONOMIC AFFAIRS)  
CURRENCY NOTE PRESS

Nasik Road, the 24th January 2005

No. 32/S-ESC-1-10.—The following Inspector Control of Currency Note Press are promoted to the post of Dy. Control Officer (Group 'B', Gazetted), Currency Note Press purely on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- for the period shown against their names or till the posts of Control Officer are filled on regular basis, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	From	To
1.	Shri P. G. Zodgekar	09.12.2004	12.01.2005
2.	Shri H. S. Ahire (SC)	13.12.2004	12.01.2005
3.	Shri K. P. Rajesth	12.01.2005	11.07.2005

2. The above ad-hoc promotion will not bestow on the promotee any claim for regular appointment and the ad-hoc service rendered by him would not count for the purpose of seniority in that grade for regular promotion,

The above ad-hoc promotion is also liable for termination without assigneing any reasons.

A. N. INGLE  
General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT  
GENERAL (CIVIL AUDIT), ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500004, the 2005

Principal Accountant General (Civil Audit), Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to declare the retirement of the following Senior Audit Officers (Civil) with effect from the date noted against the names :—

Sl. No.	Name	Designation	Date of Retirement
1	2	3	4
	S/Shri/Smt.		
1.	G. Vijaya Lakshmi	Sr. Audit Officer	31.12.2004 (A.N.)
2.	Mohd. Mastan Ali	Sr. Audit Officer	31.12.2004 (A.N.)

1	2	3	4
	S/Shri/Smt.		
3.	R. Yellamanda	Sr. Audit Officer	31.12.2004 (A.N.)
4.	K. Satyaprasad	Sr. Audit Officer	31.12.2004 (A.N.)
5.	V. Devadanam	Sr. Audit Officer	31.12.2004 (A.N.)

C. SAILAJA  
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

Principal Accountant General (Civil Audit), Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to declare the retirement of the following Assistant Audit Officers (Civil) with effect from the date noted against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of retirement
	S/Shri	
1.	Bayard Collins	19.10.2004 (A.N.) (Resigned)
2.	T. R. Jaganath Rao	31.12.2004 (A.N.)

C. SAILAJA  
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

#### OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, ORISSA (COMMERCIAL, WORKS & RECEIPT AUDIT)

Bhubaneswar, the 20th January 2005

No. E.O./02.—In pursuance of Hd. Qrs. Office sectional office order No. CA-I/Admn./01 dated 03.01.2005, communicated vide this office OOC (Coml.) No. 41 dated 05.01.2005 the following A.O. (Coml.) on their promotion have assumed charge as Sr. A.O. (Coml.) in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- w.e.f. the date indicated against their name in Commercial Audit Wing of the O/o the A.G. (CW&RA), Orissa, Bhubaneswar :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of taking over charge as Sr. A.O. (Coml.)
	S/Shri	
1.	Dibakar Mohapatra	05.01.2005 (F.N.)
2.	Padmanav Sahoo	12.01.2005 (F.N.)
3.	Dhananjay Das	05.01.2005 (F.N.)

The promotion to cadre of Sr. A.O. (Coml.) are subject to the final decision of Hon'ble High Court/CAT/Supreme

Court etc. on the cases, subjudice in courts and without prejudice to the claims of their seniors.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant General (Admn.)

No. E.O./03.—In pursuance of Hd. Qrs. Office sectional office order No. CA-I/Admn./02 dated 03.01.2005, communicated vide this office OOC (Coml.) No. 42 dated 05.01.2005 the following S.O. (Coml.) on their promotion have assumed charge as A.A.O. (Coml.) in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- w.e.f. the date indicated against their name in Commercial Audit Wing of the O/o the A.G. (CW&RA), Orissa, Bhubaneswar :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of taking over charge as A.A.O. (Coml.)
	S/Shri	
1.	Dipak Kumar Sahoo	05.01.2005 (F.N.)
2.	Bharat Chandra Behera	12.01.2005 (F.N.)
3.	Pravat Kumar Pradhan	05.01.2005 (F.N.)
4.	Subrat Kumar Sethi	01.01.2005 (F.N.)
5.	Kaushim Das	05.01.2005 (F.N.)
6.	Himansu Sekhar Barik	10.01.2005 (F.N.)
7.	Dusasana Behera	10.01.2005 (F.N.)

The promotion to cadre of A.A.O. (Coml.) are subject to the final decision of Hon'ble High Court/CAT/Supreme Court etc. on the cases, subjudice in courts and without prejudice to the claims of their seniors.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant General (Admn.)

#### MINISTRY OF DEFENCE ORDNANCE FACTORY BOARD

Kolkata-700001, the 25th January 2005

No. 134/SPL/CONF/A/M.—The President is pleased to confirm the following officers in the grade of Specialist Medical Officers Grade-II (Jr. Scale) on successful completion of their probationary period :—

Sl. No.	Name & Designation	Date of Confirmation
1	2	3
1.	Dr. S. K. Mishra	05.08.2004
2.	Dr. A. K. Arya	21.04.2004
3.	Dr. Praveen Kumar	03.05.2004

1	2	3
4.	Dr. (Ms.) Kavita Ojha	03-05-2004
5.	Dr. S. Vijaykumar	14.06.2004
6.	Dr. (Ms.) P. Bandyopadhyay	12.11.2004

DR. M. K. LANGTHASA  
Addl. DHS  
for Director General, Ordnance Factories

### MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT (LABOUR BUREAU)

Shimla-171004, the 31st January 2005

No. 5/1/2004-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 1982=100 has decreased by 4 points to stand at 521 (five hundred & twentyone) for the month of December, 2004.

I. S. NEGI  
Dy. Director

### KOYLA AUR KHAN MANTRALAYA GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 24th January 2005

#### CORRIGENDUM

No. 147/B/A-19012/(1-AKS)/02-19A.—In partial modification of this Office Notification No. 2766/A-19012/(1-AKS)/02-19A, dated 30.9.2004, the name of Officer appearing at line 1 of the Notification may be read as Shri Ajay Kumar Singh instead as Ajoy Kumar Singh.

The other contents of the Notification will remain unchanged.

S. K. SINHA  
Senior Administrative Officer  
for Director General

### MINISTRY OF CULTURE (DEPARTMENT OF CULTURE) ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 27 January 2005

No. 4-331/2004/Estt.—The Director-in-Charge, Anthropological Survey of India, is pleased to appoint Shri N. K. Sinha, Research Associate (Cultural) attached to the N.W.R.C., Dehradun of this Survey to the post of Assistant Anthropologist (Cultural), Group-B (Gazetted), in the scale

of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- at the same station with effect from the forenoon of the 20th December, 2004, until further orders.

LOK NATH SONI  
Head of Office

### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the January 2005

No. 18/1(2)/2004-ER/136.—The President is pleased to appoint the following officers in the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) on appointment to the Grade mentioned against their names with effect from the forenoon of September 01, 2004 until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Grade on appointment	Scale of pay (Rs.)
1.	Kum. Sonal Surana	Scientific Officer/C	8,000-275-13,500
2.	Kum. Ritu Suryaprakash Singh	Scientific Officer/C	8,000-275-13,500
3.	Shri Srikakulapu Ganga Krishna	Scientific Officer/C	8,000-275-13,500
4.	Shri Soumen Sinha	Scientific Officer/C	8,000-275-13,500

K. PADMANABHAN  
Under Secy.

### VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE

Kolkata-700064, the 24th January 2005

No. VECC/Prom.(Aug.)/2004/363.—The President of India is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/C of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata as Scientific Officers/D (Grade : Rs. 10,000—15,200/-) in the same Centre with effect from the forenoon of August 01, 2004 in an officiating capacity, until further orders :—

Sl. No.	Name	Post held at present	Grade (Rs.)
	S/Shri		
1.	P. Singh Babu	Scientific Officer/C	8,000-275-13,500
2.	Samit Bandyopadhyay	Scientific Officer/C	8,000-275-13,500
3.	S. De Chowdhury	Scientific Officer/C	8,000-275-13,500
4.	Partha Dhara	Scientific Officer/C	8,000-275-13,500
5.	S. K. Nayak	Scientific Officer/C	8,000-275-13,500

N. SRINIVASA RAO  
Chief Administrative Officer

No. VECC/Prom.(Aug.)/2004/364.—The President of India is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/D of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata as Scientific Officers/E (Grade : Rs. 12,000-375-16,500/-) in the same Centre with effect from the forenoon of August 01, 2004 in an officiating capacity, until further orders :—

Sl. No.	Name	Post held at present	Grade (Rs.)
	S/Shri		
1.	G. C. Basak	Scientific Officer/D	10,000-325-15,200
2.	R. B. Bhole	Scientific Officer/D	10,000-325-15,200
3.	Rabindranath Dey	Scientific Officer/D	10,000-325-15,200
4.	Surjit Pal	Scientific Officer/D	10,000-325-15,200

N. SRINIVASA RAO  
Chief Administrative Officer

#### CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore-452013, the 24th January 2005

No. CAT/Admn./Rect.-807(I)/43.—The Director, Centre for Advanced Technology, Indore hereby appoints Shri K. S. Pillai, Assistant Personnel Officer to officiate as Administrative Officer-II in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from the forenoon of 28th December 2004 in the Centre for Advanced Technology, Indore until further orders.

S. C. JAIN  
Chief Administrative Officer

#### DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai-400094, the 7th January 2005

No. DPS/Rectt./11004/91.—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints

Shri Karakulath Muraleedharan, Assistant Accountant, BARC, Mumbai as Assistant Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- in DPS, Mumbai on regular basis in a temporary capacity w.e.f. 30.12.2004 (F.N.) until further orders.

KISHAN T. LONDHE  
Administrative Officer-III

The 11th January 2005

No. DPS/10015/Rectt./164.—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri M. R. Sarkar, Storekeeper, CSU, DPS, Mumbai as Assistant Stores Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on an ad-hoc basis in the same Unit with effect from 16.11.2004 (A.N.) to 17.12.2004 (A.N.).

KISHAN T. LONDHE  
Administrative Officer-III :

#### HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400094, the 28th January 2005

#### CORRIGENDUM

No. HWB/R/2(5)/2004/138.—Reference is invited to this Office Notification No. HWB/R/2(5)/2004/65 dated 11.01.2005 regarding appointment of S/Shri Bibhas Prasad and Pramod Kumar Maheshwari as Scientific Officers/Engineers Grade 'C' in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in HWP (thal) and HWB (Central Office).

The date of appointment in respect of the above Officers may please be corrected to read as forenoon of September 01, 2004 instead of afternoon of September 01, 2004.

R. K. SAINI  
Chief Administrative Officer

#### MINISTRY OF WATER RESOURCES CENTRAL GROUND WATER BOARD

Faridabad-121001, the 20th January 2005

No. 12-17/2K(2)/Prob. & Conf./Jr.HG/Sci(Estt.).—On the recommendation of DPC (Group-A—Gazetted) and on the approval of the competent authority, the following Officers have completed their probationary period satisfactorily and subsequently appointed substantively as Junior Hydrogeologist in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the date shown in Col. No. (4) & (5) :—

Sl. No.	Name of the Junior Hydrogeologist	Date of Appointment/promotion	Date of Completion of probation period	Date of permanency	Present place of posting
1	2	3	4	5	6
1	Shri O. N. Tiwari (Now Sr. HG)	02.03.1987	01.03.1989	02.03.1989	MER, Patna
2.	Shri Ashok Kumar, Jr. HG	06.11.1992	05.11.1994	06.11.1994	NWHR, Jammu

1	2	3	4	5	6
3.	Shri A. Ravi	27.08.1992	26.08.1994	27.08.1994	SECR, Chennai
4.	Shri U. Srivastava	01.10.1993	30.09.1995	01.10.1995	NR, Lucknow
5.	Shri Anurag Khanna	28.09.1993	27.09.1995	28.09.1995	WR, Jaipur
6.	Shri A. Ashokan	29.10.1993	28.10.1995	29.10.1995	SECR, Chennai
7.	Shri P. N. Singh	01.08.1997	31.07.1999	Already confirmed in the grade of AHG	SUO, New Delhi
8.	Shri Avanish Kant	16.08.1995	15.08.1997	16.08.1997	NR, Lucknow
9.	Shri Dinesh Tiwari	24.07.1995	23.07.1997	24.07.1997	NCCR, Raipur
10.	Shri S. K. Sehgal	04.08.1997	03.08.1999	Already confirmed in the grade of AHG	NWR, Chandigarh
11.	Shri V. S. Saivsan	08.08.1997	07.08.1999	Do.	SWR, Bangalore
12.	Shri O. P. Poonia	04.08.1997	03.08.1999	Do.	SUO, Jodhpur
13.	Shri M. L. Parmar	12.12.1997	11.12.1999	Do.	NCR, Bhopal
14.	Shri Ajai Veer Singh	01.08.1997	31.07.1999	Do.	NR, Lucknow
15.	Shri N. K. Srivastava	13.08.1997	12.08.1999	Do.	NR, Lucknow
16.	Shri Alok Kumar Srivastava	12.11.1997	11.11.1999	12.11.1999	CHQ, Faridabad
17.	Shri S. S. Hegde	28.11.1997	27.11.1999	Already Pmt.	SWR, Bangalore
18.	Dr. Jawd Raza	04.09.1997	03.09.1999	Do.	CHQ, Faridabad
19.	Shri S. K. Verma	04.08.1997	03.08.1999	Do.	NCR, Bhopal
20.	Shri K. J. Ananda Kumar	01.08.1997	31.07.1999	Do.	CGWA, New Delhi
21.	Shri A. K. Ghosh	01.08.1997	31.07.1999	Do.	ER, Kolkata
22.	Shri M. K. Sharm	06.08.1997	05.08.1999	Do.	WR, Jaipur
23.	Dr. (Mrs.) Swapna Devi	04.08.1997	03.08.1999	Do.	NER, Guwahati
24.	Smt. Shanta Dutta	01.08.1997	31.07.1999	Do.	SECR, Chennai
25.	Shri B. C. Kalita	18.08.1997	17.08.1999	Do.	NER, Guwahati
26.	Shri P. S. Chauhan	26.08.1997	25.08.1999	Do.	NR, Lucknow
27.	Shri J. P. Gautam	26.08.1997	25.08.1999	Do.	NR, Lucknow

S. K. SINHA  
Director (Admn.)

The 27th January 2005

No. 3-1497/2004-Min. Estt.—On the recommendations of the DPC, Shri Sita Ram, Stenographer (Grade-I) is promoted to the post of Private Secretary (Group 'B') (Gazetted) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in Central Ground Water Board on temporary basis with effect from 29th April 2004 (F.N.).

S. K. SINHA  
Director (Admn.)

---

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS  
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)  
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sui-Genesis Pharmaceuticals Private Limited

New Delhi-110019, the 15th September 2004

No. SES/560(5)/55/87326/255/1596.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sui-Genesis Pharmaceuticals Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

---

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Solid Fincon & Securities Limited

New Delhi-110019, the 6th January 2005

No. SES/560(5)/55/75651/92.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Solid Fincon & Securities Limited has been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the day of published in Official Gazette.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

---

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Palmer Associates India Private Limited

New Delhi-110019, the 6th January 2005

No. SES/560(5)/55/94355/95.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Palmer Associates India Private Limited has been struck off from the Register and

the said Company is dissolved from the day of published in Official Gazette.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

---

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nonya & Roy Communications Private Limited

New Delhi-110019, the 6th January 2005

No. SES/560(5)/55/115036/303/98.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nonya & Roy Communications Private Limited has been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the day of published in Official Gazette.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

---

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mipun Financial Services Private Limited

New Delhi-110019, the 6th January 2005

No. SES/560(5)/05/31984/304/101.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mipun Financial Services Private Limited has been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the day of published in Official Gazette.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

---

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. S. J. Infotech Private Limited

New Delhi-110019, the 6th January 2005

No. SES/560(5)/55/97863/298/106.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S. J. Infotech Private Limited has been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the day of published in Official Gazette.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana



In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Strategy Finvesta Lease Private Limited

New Delhi-110019, the 6th January 2005

No. SES/560(5)/55/76353/188/109.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Strategy Finvesta Lease Private Limited has been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the day of published in Official Gazette.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. A. K. Alcosugar & Inveslease Private Limited

New Delhi-110019, the 6th January 2005

No. SES/560(5)/55/75917/112.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A. K. Alcosugar & Inveslease Private Limited has been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the day of published in Official Gazette.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. K.G.S. Trading Private Limited

New Delhi-110019, the 6th January 2005

No. SES/560(5)/55/102233/115.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. K.G.S. Trading Private Limited has been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the day of published in Official Gazette.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vari Polychem Limited

New Delhi-110019, the 6th January 2005

No. SES/560(5)/55/88199/120.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vari Polychem Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the day of published in Official Gazette.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bajrang Finlease Private Limited

New Delhi-110019, the 6th January 2005

No. SES/560(5)/55/83868/129.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bajrang Finlease Private Limited has been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the day of published in Official Gazette.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Effective Tours & Travels Private Limited

New Delhi-110019, the 6th January 2005

No. SES/560(5)/55/95619/284/132.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Effective Tours & Travels Private Limited has been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the day of published in Official Gazette.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Surajpur Gases Private Limited

New Delhi-110019, the 6th January 2005

No. SES/560(5)/55/94190/194/135.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Surajpur Gases Private Limited has been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the day of published in Official Gazette.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Arora Cables Private Limited

New Delhi-110019, the 6th January 2005

No. SES/560(5)/55/89552/268/138.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arora Cables Private Limited has been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the day of published in Official Gazette.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Accent Infotech Private Limited

New Delhi-110019, the 6th January 2005

No. SES/560(5)/55/103662/286/142.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Accent Infotech Private Limited has been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the day of published in Official Gazette.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Morcella (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 6th January 2005

No. SES/560(5)/55/97820/265/144.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Morcella (India) Private Limited has been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the day of published in Official Gazette.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vandna Finance Company Private Limited

New Delhi-110019, the 6th January 2005

No. SES/560(5)/55/76334/279/147.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vandna Finance Company Private Limited has been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the day of published in Official Gazette.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mahayog Ayurved Health Care Private Limited

New Delhi-110019, the 6th January 2005

No. SES/560(5)/55/115426/187/150.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mahayog

Ayurved Health Care Private Limited has been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the day of published in Official Gazette.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. DLF Industrial Research Institute (Private Company  
Limited by Guarantee)

New Delhi-110019, the 6th January 2005

No. SES/560(5)/55/15241/153.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. DLF Industrial Research Institute (Private Company Limited by Guarantee) has been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the day of published in Official Gazette.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Brij Industries Private Limited

New Delhi-110019, the 27th January 2005

No. 560(3)/Co.No. 13173./142.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Brij Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Saurabh Share Consultants Private Limited

Jaipur, the 20th January 2005

No. ROC/JPR/560/15834/70.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Saurabh Share Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies  
Rajasthan